


AGARWAL



DUPLEX BOARD MILLS LIMITED

CIN : L99999DL1984PLC019052

**Regd Office : 217, Agarwal Prestige Mall, Plot No. 2, Community Center, Along Road No. 44
Pitampura, Delhi - 110034 (Near M2K Cinema) Ph. : (91-11) 47527700 Fax : 011-47527777
Email : agarwalduplex1984@gmail.com Website : www.agarwalduplex.net**

To,

31.05.2023

Metropolitan Stock Exchange of India Limited,
Vibgyor Towers, 4th floor, Plot No C 62, G - Block,
Opp. Trident Hotel, BandraKurla Complex, Bandra (E),
Mumbai – 400 098, India.

Dear Sir/Madam,

**Subject: Newspaper Publication of Audited Financial Results for the quarter & year ended
31/03/2023**



Ref: Reg 47 of SEBI (Listing Obligation & Disclosure Requirement), Regulation, 2015

Pursuant to Regulation 47 of SEBI (Listing Regulation & Disclosure Requirement), Regulation, 2015, please find enclosed the newspaper publication of the Audited Financial Results for the quarter & year ended 31st March, 2023 published in the newspapers – “Financial Express” and “Jansatta” both dated 31st May 2023.

This is for your information and record.

Thanking You,

Yours Faithfully,
For Agarwal Duplex Board Mills Limited



Neeraj Goel
Managing Director
DIN: 00017498
Add: 217, Agarwal Prestige Mall, Plot No. 2
Community Center Along Road No. 44,
Pitampura, Delhi – 110034

Copy To:
Calcutta Stock Exchange Ltd.
Encl: As above

SHAKUMBHRI PULP & PAPER MILLS LIMITED
 CIN: L21012UP1986PLC007671
 REGD. OFFICE: 4.5 KM, BHOPA ROAD, MUZAFFARNAGAR -251001, UTTAR PRADESH
AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED AS ON 31ST MARCH 2023
 (Rs. In Lakhs)

| Sl. No. | Particulars | (STANDALONE) | | | | |
|---------|--|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|---------------------|
| | | 31-Mar-23 | | 31-Dec-22 | | 31-Mar-22 |
| | | 3 months (Audited) | 3 months (Unaudited) | 3 months (Audited) | 3 months (Unaudited) | 12 months (Audited) |
| 1 | Total Income from Operations | 2,076.17 | 1,920.72 | 3,010.76 | 9,412.59 | 10,507.91 |
| 2 | Net Profit / (Loss) for the period (before Tax & Exceptional) | -8.41 | -103.52 | 66.06 | -97.74 | 229.95 |
| 3 | Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional items) | -8.41 | -103.52 | 66.06 | -97.74 | 229.95 |
| 4 | Net Profit / (Loss) for the period after tax | 21.77 | -101.75 | 37.22 | -69.12 | 155.17 |
| 5 | Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)) | 25.35 | (101.49) | 39.91 | (64.44) | 158.84 |
| 6 | Equity Share Capital | 385.50 | 385.50 | 385.50 | 385.50 | 385.50 |
| 7 | Reserves (excluding Revaluation Reserve) | - | - | - | 812.76 | 877.20 |
| 8 | Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) | 0.56 | -2.64 | 0.97 | -1.79 | 4.03 |
| | 1. Basic | 0.56 | -2.64 | 0.97 | -1.79 | 4.03 |
| | 2. Diluted: | 0.56 | -2.64 | 0.97 | -1.79 | 4.03 |

Notes:
 1) The above is an extract of the detailed format of Quarterly and yearly Audited Financial Result filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly/Yearly Audited Financial Results are available on website of the company www.shakumbhripulp.com.
 2) The above results were reviewed and recommended by the audit committee and taken on record by the Board of Director at its meeting held on 30.05.2023 and same has been audited by the Company's Statutory Auditors.

SHAKUMBHRI PULP & PAPER MILLS LIMITED
 sd/-
 Girish Kumar Agarwal
 Whole Time Director
 DIN:06457199

Place: Muzaffarnagar
 Date: 30-05-2023

AGARWAL DUPLEX BOARD MILLS LIMITED
 CIN: L9999DU1984PLC019952
 Regd. Office: 217, Agarwal Prestige Mall, Plot No. 2 Community Center, Algora Road No. 44, Pitampura, Delhi - 110034
 Board: +91 11 47527700, Fax: +91 11 47527777, E-mail: agarwalduplex@gmail.com, Website: www.agarwalduplex.net
AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER & YEAR ENDED 31ST MARCH, 2023
 (Rs. In Lakhs)

| Sl. No. | Particulars | (STANDALONE) | | | | |
|---------|--|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|---------------------|
| | | 31-Mar-23 | | 31-Dec-22 | | 31-Mar-22 |
| | | 3 Months (Audited) | 3 Months (Unaudited) | 3 Months (Audited) | 3 Months (Unaudited) | 12 Months (Audited) |
| 1 | Total Income from Operations | 4166.85 | 4990.07 | 6063.05 | 21357.49 | 20432.04 |
| 2 | Net Profit/(Loss) for the period (before Tax & Exceptional) | -30.83 | 29.17 | 44.65 | 95.29 | 172.07 |
| 3 | Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional items) | -30.83 | 29.17 | 44.65 | 95.29 | 172.07 |
| 4 | Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items) | -42.79 | 27.69 | 22.12 | 56.71 | 107.53 |
| 5 | Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)) | -5.36 | 27.69 | 36.55 | 94.14 | 121.96 |
| 6 | Equity Share Capital | 1350.00 | 1350.00 | 1350.00 | 1350.00 | 1350.00 |
| 7 | Reserves (including Revaluation Reserve) (Year ended figures) | - | - | - | 1633.30 | 1539.16 |
| 8 | Earnings Per Share (of Rs. 1/- each) | -0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.08 |
| | 1. Basic | -0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.08 |
| | 2. Diluted: | -0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.08 |

Notes:
 1) The above is an extract of the detailed format of Quarterly & yearly Audited Financial Result filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly & yearly Audited Financial Results are available on Stock Exchange websites (www.mseil.in) and on the company's website: www.agarwalduplex.net.
 2) The above results were reviewed and recommended by the audit committee and taken on record by the Board of Director at its meeting held on 30/05/2023 and the Statutory Auditor have conducted the audit of the financial statements and have expressed an unmodified report on these financial results.

Agarwal Duplex Board Mills Limited
 sd/-
 Veeraj Goel
 Managing Director
 DIN: 00017450

Place: Delhi
 Date: 30/05/2023

Hardwyn
 Registered Office: B-10, Phase-1, Mayapuri, New Delhi, South West Delhi - 110064
 Phone No: +91 8212373715; Email: info@hardwyn.com, Website: www.hardwyn.com
HARDWYN INDIA LIMITED
 CIN: L74900DL2019PC324828
STATEMENT OF AUDITED STANDALONE AND CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED ON 31ST MARCH 2023
 (Rs. In Lakhs) except EPS

| Sr No. | Particulars | Standalone | | Consolidated | |
|--------|---|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|
| | | Quarter Ended | | Year Ended | |
| | | 31.03.2023 (Audited) | 31.03.2022 (Unaudited) | 31.03.2023 (Audited) | 31.03.2022 (Unaudited) |
| 1 | Total income from operations (net) | 3,055.98 | 3,336.60 | 12,577.61 | - |
| 2 | Net Profit/(Loss) for the period (before tax, Exceptional and/or Extraordinary items) | 54.05 | 239.69 | 1,277.49 | - |
| 3 | Net Profit/(Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items) | 54.05 | 239.69 | 1,277.49 | - |
| 4 | Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items) | 373.24 | 166.24 | 903.41 | - |
| 5 | Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)** | 373.24 | 166.24 | 903.41 | - |
| 6 | Equity Share Capital | 2,616.64 | 1,020.00 | 2,616.64 | - |
| 7 | Reserves (excluding Revaluation Reserve as shown in the Balance Sheet of previous year) | - | - | 34,639.64 | - |
| 8 | Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) not annualized for Quarter Basic | 1.41 | 1.63 | 5.70 | - |
| | Diluted | 1.41 | 1.63 | 5.70 | - |

Notes:
 1) The above results have been reviewed and recommended by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at its meeting held on 29th May, 2023.
 2) The above is an extract of the detailed format of Audited Standalone and Consolidated Financial Results for the quarter and year ended 31st March, 2023, filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Audited Annual Financial Results are available on the Stock Exchange websites i.e. BSE Limited www.bseindia.com and National Stock Exchange of India Limited www.nseindia.com and on a company's website <http://www.hardwyn.com/>

For and on behalf of
 HARDWYN INDIA LIMITED
 sd/-
 Rubaljeet Singh Sanyal
 Managing Director & CEO
 DIN: 00280624

Place: Delhi
 Date: 29th May, 2023

SONI MEDICARE LIMITED
 REGD OFFICE: 38, KANOTA BAGH, JAWAHAR LAL NEHRU MARG, JAIPUR 302004
 CIN L51397RJ1988PLC004569, Email: cs@sonihospitals.com Website: www.sonihospitals.com
 Contact No. 0141-5163700, FAX: 0141-2564392
EXTRACT OF AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED 31ST MARCH, 2023

| S. No. | Particulars | 3 Months ended | Preceding 3 Months ended | Corresponding 3 Months ended in previous year | Year to date figures for current period ended | Year to date figures for previous year ended |
|--------|--|----------------------|--------------------------|---|---|--|
| | | 31.03.2023 (Audited) | 31.12.2022 (Unaudited) | 31.03.2022 (Audited) | 31.03.2023 (Audited) | 31.03.2022 (Audited) |
| 1 | Income from Operations (Net) | 555.86 | 747.37 | 570.09 | 2,753.16 | 2,260.62 |
| 2 | Other Operating Income | 49.84 | 18.81 | 41.84 | 96.43 | 66.75 |
| 3 | Profit and (Loss) before exceptional items and tax | (88.68) | 8.47 | (16.43) | (61.09) | (66.84) |
| 4 | Net Profit / (Loss) for the Period after tax | (90.71) | 7.30 | (9.66) | (67.33) | (60.07) |
| 5 | Paid up share capital Face Value of Rs.10/- each) | 426.49 | 426.49 | 426.49 | 426.49 | 426.49 |
| 6 | Basic and diluted EPS (Not Annualized) (Rs.) | (2.11) | 0.17 | (0.23) | (1.58) | (1.42) |
| | Basic | (2.11) | 0.17 | (0.23) | (1.58) | (1.42) |
| | Diluted | (2.11) | 0.17 | (0.23) | (1.58) | (1.42) |

Notes:
 (i) The above results have been approved by the Board of Directors at its meeting on 29th May, 2023.
 (ii) The above is an extract of the detailed format of Quarterly and Year ended audited Financial Results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly and Year ended audited Financial Results are available on the website of Stock Exchange (www.bseindia.com) and on the Company's website (www.sonihospitals.com)

Date: 29-05-2023
 Place: Jaipur

By Order of the Board of Directors
 For Soni Medicare Limited
 SD /-
 Bimal Roy Soni
 (Managing Director)
 DIN: 00716246

Rollatainers Limited
 CIN No.: L21014HR1968PLC004844
 Regd. Off.: PLOT NO. 73-74, PHASE- III, INDUSTRIAL AREA, DHARUHERA, DISTRICT- REWARI REWARI HR 123106 IN
 Tel: +91-0124-243326.242220 | Email: cs.rollatainers@gmail.com | Website: www.rollatainers.in

EXTRACT OF THE STATEMENT OF AUDITED STANDALONE AND CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED 31ST MARCH, 2023
 (₹ in Lakhs)

| Sl. No. | Particulars | STANDALONE | | | | | CONSOLIDATED | | | | | |
|---------|--|----------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|------------|------------|--------|
| | | Quarter Ended | | Year Ended | | Quarter Ended | | Year Ended | | | | |
| | | 31.03.2023 (Audited) | 31.12.2022 (Un-Audited) | 31.03.2022 (Audited) | 31.03.2023 (Audited) | 31.03.2022 (Audited) | 31.12.2022 (Un-Audited) | 31.03.2022 (Audited) | 31.03.2023 (Audited) | | | |
| 1. | Total Income from operations | 84.6 | 20.46 | 13.02 | 135.49 | 57.05 | 122.29 | 39.86 | 98.86 | 213.35 | 689.05 | |
| 2. | Profit/(Loss) before share of profit / (Loss) of associates and joint venture, exceptional items and tax | 60.42 | (12.19) | (25.76) | 0.45 | (110.39) | 43.99 | (30.44) | (88.16) | (249.53) | (1,265.62) | |
| 3. | Net Profit / (Loss) for the period (before tax, exceptional and/or extraordinary items) | 60.42 | (12.19) | (25.77) | 0.45 | (110.39) | 43.99 | (30.44) | (88.49) | (249.53) | (1,441.40) | |
| 4. | Net Profit / Loss for the period before tax (after exceptional and/or extraordinary items) | 60.42 | (12.19) | (25.77) | 0.45 | (4,993.57) | (17.32) | 30.29 | (4,437.40) | (2,074.17) | (5,947.86) | |
| 5. | Net Profit for the period after tax from continuing business (after exceptional and/or extraordinary items) | 60.42 | (12.19) | (25.77) | 0.45 | (4,993.57) | (17.32) | 30.29 | (5,407.02) | (2,074.17) | (6,917.48) | |
| 6. | Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and other Comprehensive Income (after tax)) | 60.42 | (12.19) | (25.77) | 0.45 | (4,993.57) | (17.32) | 30.29 | (1,508.36) | (2,074.17) | (3,018.83) | |
| 7. | Paid-up Equity Share Capital (Face Value of Rs. 1/- each) | 2,501.00 | 2,501.00 | 2,501.00 | 2,501.00 | 2,501.00 | 2,501.00 | 2,501.00 | 2,501.00 | 2,501.00 | 2,501.00 | |
| 8. | Earnings per Share (Face Value of Rs 1/- each) for continuing operations) | (a) Basic | 0.02 | 0.00 | (0.01) | 0.00 | (2.00) | (0.01) | 0.01 | (0.58) | (0.74) | (1.20) |
| | (b) Diluted | 0.02 | 0.00 | (0.01) | 0.00 | (2.00) | (0.01) | 0.01 | (0.58) | (0.74) | (1.20) | |

Notes to financial results:
 1. The above Audited financial results have been reviewed and recommended by the Audit Committee on 29th May, 2023 and subsequently have been approved by the Board of Directors of the company at their meeting held on 29th May, 2023.
 2. The Financial results have been prepared in accordance with Indian Accounting Standards ("Ind AS") prescribed under Section 133 of Companies Act, 2013 read with relevant rules thereunder and in terms of regulations of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (as amended).
 3. During the year, company has shown expense under the head Exceptional Items as detailed below:

| Particulars | Standalone | Consolidated |
|-------------------------------------|------------|------------------|
| i) Diminution in value of Inventory | 0.00 | (1172.98) |
| ii) Balances written back | 0.00 | 448.11 |
| iii) Loss on sale of fixed assets | 0.00 | (803.47) |
| iv) Loss on sale of inventory | 0.00 | (113.66) |
| v) Provision for bad debts | 0.00 | (182.64) |
| Total | | (1824.64) |

4. The other income for the year ended 31st March 2023 for includes balances written back amounting to Rs 67.76 lakhs which have been outstanding for more than 3 years.
 5. The statutory dues of TDS and GST amounting to Rs 1.87 lacs, and 55.46 lacs respectively as on 31st March, 2023
 6. The figures for the quarter ended 31st March 2023 are the balancing figures between the audited figures of nine year ending 31st March, 2023 and the unaudited published figure upto nine months ended on 31st December, 2022 of the relevant financial year.
 7. The consolidated financial statements include financial statements of the subsidiary RT Packaging Ltd., joint venture Rollatainers Toyo Machines Pvt. Ltd. (strike off) and associate Oliver Engineering Pvt. Ltd. (Company under corporate insolvency resolution process)
 8. The Company's accumulated losses as on 31st March, 2023 stands at Rs. 12,265.47 lakhs. The Group has incurred a net loss of Rs. 2074.17 lakhs for the period ended 31st March, 2023 and accumulated losses as on 31st March, 2023 stand at Rs. 21,185.34 lakhs. However, these financial results have been prepared on the going concern basis as the management is confident on the Company's ability to continue as a going concern for a foreseeable future. The statutory dues of TDS and GST amounting to Rs. 1.96 lacs, and 52.35 lacs respectively as on 30-Sep-22
 9. Previous year figures have been regrouped and rearranged wherever necessary to make them comparable with those of current year.

Date: 29/05/2023
 Place: New Delhi
 For Rollatainers Limited
 sd/-
 Aarti Jain
 Chairperson
 DIN: 00143244

FOR DAILY BUSINESS.

FINANCIAL EXPRESS

THE BUSINESS DAILY.

financialexpress.com